

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि०,
गाजीपुर

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजीपुर।

विषय:-नेशनल बिल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर के पत्रांक 29/आ०लि०/2024 Dated 11-09-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के क्रम में के०डी०पब्लिक स्कूल, मुहम्मदपुर कुसुम, महडौर, कसिमाबाद, गाजीपुर के भवन का दिनांक 15-09-2024 को अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया। “उक्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005” में निहित प्राविधानों के अनुसार नेशनल बिल्डिंग कोड से सम्बन्धित कुल 22 बिन्दुओं की जाँच कर जाँच आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गाजीपुर
दिनांक 16/10/2024

पत्रांक 2048/2470

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर।
- 2- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के०डी०पब्लिक स्कूल, मुहम्मदपुर कुसुम, महडौर, कसिमाबाद, गाजीपुर

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०
गाजीपुर

विद्यालय का नाम:-के०डी०पब्लिक स्कूल, मुहम्मदपुर कुसुम, महडौर, कसिमाबाद, गाजीपुर।

क्रम सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्चर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्ग मीटर) है ?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ऑरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	3.00 मीटर
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी ?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बने हैं ?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की उंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ढंडे क्षेत्रों में 2.0 मी०) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी एवं उंचाई 4.50 मी० है ?	4.54x6.0 MTR
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	है, नहीं
15	क्या कक्षा में न्यूनतम दरवाजे हैं ?	सारे कमरों में दो दरवाजा है
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है ?	है
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	दो स्टेयर
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मी०मी० ट्रेड 300 मि०मी० तथा राइजर 150 मि०मी० है ?	है
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	है/नहीं
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है ?	है
21	क्या विद्यालय के छात्रों/ अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	है

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०,
गाजीपुर